

प्रेस विज्ञप्ति-

दिनांक: 12.10.2021

स्वाट टीम व थाना अगौता पुलिस द्वारा गुमशुदा रामपाल(बीएसएफ जवान) हत्याकाण्ड का सफल अनावरण, हत्यारोपी पुत्र हिमांशु आलाकत्ल बलकटी सहित गिरफ्तार

दिनांक 26.05.21 को वादी रोशिन्द्र पुत्र रामपाल निवासी सेगा जगतपुर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर ने थाना अगौता पर सूचना अंकित करायी थी कि उसका पिता रामपाल बीएसएफ(अर्द्धसैनिक बल) पौखरन जसलमेर राजस्थान में हवलदार के पद पर तैनात है जो दिनांक 29-03-2021 को 01 दिन के लिये परिवार से मिलने घर आये थे तथा दिनांक 30-03-2021 को सुबह करीब 04.00 बजे उसका छोटा भाई हिमांशु सिरौही पिता जी रामपाल को ड्यूटी जाने के लिये बाबूगढ चौराहे पर छोड़कर आये थे परन्तु पिता जी न ही ड्यूटी पर पहुंचे और न ही घर वापस आये जिसको काफी तलाश किया गया नहीं मिल सका। इस संबंध में थाना अगौता पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गयी थी।

उपरोक्त गुमशुदा रामपाल की तलाश हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी व अपर पुलिस अधीक्षक अपराध श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर श्री शशांक सिंह के निकट पर्यवेक्षण में स्वाट टीम सहित कई टीम गठित कर लगाया गया था तथा गठित टीमों द्वारा रामपाल की निरन्तर संभावित स्थानों पर काफी तलाश की जा रही थी। पुलिस टीमों से सेगा जगतपुर निवासी जितेन्द्र, रविकरण व अन्य लोगो ने रामपाल को गायब करने में उसके पुत्रों के शामिल होने की आशंका व्यक्त की। पंजीकृत गुमशुदगी को मुअसं- 218/21 धारा 364 भादवि में तरमीम किया गया।

दिनांक 11.10.2021 की रात्रि में प्रभारी स्वाट टीम व थाना अगौता पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त हिमांशु को हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा अपने भाई रोशिन्द्र व अपने साथी प्रशान्त पुत्र जन्म सिंह के साथ मिलकर अपने पिता रामपाल की बलकटी से गर्दन काटकर हत्या कर शव को अपनी ट्यूबवैल के कुएं में छुपाना बताया तथा अभियुक्त हिमांशु की निशादेही पर मृतक रामपाल के शव को ट्यूबवैल के कुएं से बरामद कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त बलकटी भी बरामद कर ली गयी है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त प्रशान्त को थाना अगौता पुलिस द्वारा दिनांक 11.10.2021 को सोशल मीडिया(फेसबुक) पर तमंचे सहित फोटो वायरल करने पर तमंचे सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1- हिमांशु पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सेगा जगतपुर थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी-

1. घटना में प्रयुक्त बलकटी

हत्या का कारण-

गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उसका पिता रामपाल उसके भाई रोशिन्द्र की पत्नी पर गलत नजर रखता था तथा विरोध करने पर सम्पत्ति से बेदखल करने की धमकी दिया करता था और न ही खर्चे के लिये पैसे दिया करता था। इसी कारण हिमांशु द्वारा अपने भाई रोशिन्द्र व अपने साथी प्रशान्त के साथ मिलकर दिनांक 29-03-2021 की रात्रि में बलकटी से अपने पिता रामपाल की गला काटकर हत्या कर शव को ट्यूबवैल के कुएं में ले जाकर छुपा दिया था। इसके बाद पिता जी के गायब होने की झूठी गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी। अभियोग में धारा 302/201 भादवि की वृद्धि की गयी है। उपरोक्त घटना में संलिप्त शेष अभियुक्त रोशिन्द्र की गिरफ्तारी के भी सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अगौता पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट टीम-

- 1- श्री सुधीर कुमार त्यागी प्रभारी स्वाट टीम
- 3- उ0नि0 धीरज राठी, है0का0 मनोज कुमार दीक्षित, है0का0 जितेन्द्र यादव, है0का0 हरेन्द्र सिंह, है0का0 विकास कुमार, है0का0 मनीष त्यागी, है0का0 आशीष कुमार, का0 कपिल नैन, का0 विशाल चौहान, का0 प्रबलि तोमर, का0 राहुल बालियान, का0 वसीम, का0 अक्षय त्यागी, है0का0 चालक जितेन्द्र त्यागी, है0का0 मणिकान्त त्यागी।

थाना अगौता पुलिस टीम-

- 1- श्री अमर सिंह, प्रभारी निरीक्षक अगौता
- 2- व0उ0नि0 कामेश कुमार, उ0नि0 हवलदार सिंह, उ0नि0 अमरदीप शर्मा, उ0नि0 राम गोपाल, का0 पंकज, का0 नितिन